

एसीबी ने मुंबई पुलिस के उप निरीक्षक एवं 3 कॉन्स्टेबल को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया

जयपुर 24 नवंबर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय, विशेष अनुसंधान इकाई द्वारा मंगलवार को कार्यवाही करते हुए बोरीवली पुलिस थाना मुंबई में कार्यरत उप निरीक्षक प्रशांत शिंदे एवं तीन कांस्टेबल लक्ष्मण, सुभाष पांडुरंग एवं सचिन अशोक गुडके को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते जयपुर रेलवे स्टेशन स्थित गंगा होटल से गिरफ्तार किया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि परिवारी अमन शर्मा ने एसीबी में यह शिकायत दी कि उनके जयपुर स्थित मकान में किराए से रहने वाले मुंबई निवासी विनोद के खिलाफ मुंबई बोरीवली थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज था जिसमें कल रात को उसके पिताजी को मुंबई पुलिस के उक्त चारों पुलिस कार्मिकों ने पकड़ लिया वह परिवारी के पिता पर यह दबाव बना रहे थे कि आरोपी विनोद को पकड़वो। एवं परिवारी के पिता को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में परिवारी से 2 लाख रुपए की रिश्वत की राशि की मांग कर रहे थे।

उल्लेखनीय है कि मुंबई बोरीवली पुलिस थाने में विनोद के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज था एवं विनोद मुंबई निवासी है एवं जयपुर में किराए से रहकर कपड़े की ट्रेडिंग का व्यापार करता है

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एमएन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान इकाई श्री संजीव नैन के नेतृत्व में उक्त मांग का सत्यापन करवा कर आज ट्रैप कार्रवाई करते हुए जयपुर रेलवे स्टेशन स्थित गंगा होटल से बोरीवली पुलिस थाना मुंबई में कार्यरत उप निरीक्षक प्रशांत शिंदे एवं तीन कांस्टेबल लक्ष्मण, सुभाष पांडुरंग एवं सचिन अशोक गुडके को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया एवं प्रकरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।